

September 05, 2025

To, The Secretary, Listing Department BSE Limited P. J. Towers, Dalal Street Mumbai – 400001 Scrip Code: 543591	To, The Listing Manager, Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5 th Floor, Plot No. C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400051 Symbol: DREAMFOLKS
--	--

Subject: Newspaper Advertisement – Notice of Annual General Meeting (“AGM”) of Dreamfolks Services Limited (“the Company”)

Ref: Regulation 30 & 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI LODR Regulations”)

Dear Sir(s)/Madam(s),

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III & Regulation 47 of SEBI LODR Regulations including applicable Circular(s) issued by Ministry of Corporate Affairs (“MCA”) & Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), please find enclosed herewith the advertisement copies of the relevant pages of Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) newspapers published on September 05, 2025, intimating details, inter-alia, regarding:

1. The completion of dispatch of Annual Report for the Financial Year 2024-25 & Notice convening the 17th AGM of the Company to be held on Monday, September 29, 2025 at 11:30 A.M. (IST) through Video Conference/Other Audio Visual Means; and
2. Remote e-Voting facility to be provided to the shareholders, awareness on "Saksham Niveshak", process of registering/ updation of KYC and other relevant information pertaining to the AGM as required to be given to the Members of the Company in terms of Companies Act, 2013, SEBI LODR Regulations & Circular(s) issued by MCA & SEBI.

The advertisements can also be accessed at the website of the Company at www.dreamfolks.com.

You are hereby requested to take the above intimation on record.

Thanking You!

Yours Faithfully,

For Dreamfolks Services Limited



Harshit Gupta

Company Secretary and Compliance Officer

Encl: As above

...continued from previous page.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS				REGISTRAR TO THE OFFER	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
 Kotak Mahindra Capital Company Limited 1 st Floor, 27 BKC Plot No. C-27, 'G' Block, Bandra Kurla Complex Bandra (East), Mumbai 400051, Maharashtra, India Tel: +91 22 4336 0000 E-mail: urbancompany ipo@kotak.com Website: https://investmentbank.kotak.com Investor Grievance E-mail: kmccredressal@kotak.com Contact Person: Ganesh Rane SEBI Registration No.: INM000008704	 Morgan Stanley India Company Private Limited Allimus, Level 39 and 40 Pandurang Budhkar Marg, Worli Mumbai 400 018, Maharashtra, India Tel: +91 22 6118 1000 E-mail: urbancompany ipo@morganstanley.com Website: www.morganstanley.com Investor Grievance E-mail: investors_india@morganstanley.com Contact Person: Sumit Kumar Agarwal SEBI Registration No.: INM000011203	 Goldman Sachs (India) Securities Private Limited Altimus, Level 39 and 40 Pandurang Budhkar Marg, Worli Mumbai 400 018, Maharashtra, India Tel: +91 22 6616 9000 E-mail: urbancompany ipo@gs.com Website: www.goldmansachs.com Investor Grievance E-mail: india-client-support@gs.com Contact Person: Anant Gupta SEBI Registration No.: INM000011054	 JM Financial Limited 7 th Floor, Chenergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 025 Maharashtra, India Tel: +91 22 6630 3030 E-mail: urbanco ipo@jmf.com Website: www.jmf.com Investor Grievance E-mail: grievance.ibd@jmf.com Contact Person: Prachee Dhuri SEBI Registration No.: INM000010361	 MUFG Intime India Private Limited (formerly as Link Intime India Private Limited) C-101, 1 st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West) Mumbai 400 083, Maharashtra, India Tel: +91 81 0811 4949 E-mail: urbancompany ipo@in.mpgms.mufg.com Website: https://in.mpgms.mufg.com Investor Grievance E-mail: urbancompany ipo@in.mpgms.mufg.com Contact Person: Shanti Gopalkrishnan SEBI Registration No.: INR000004058	Sonal Singh 7 th and 8 th Floor, Plot No. 183, Rajiv Nagar, Udyog Vihar Phase 1, Sector 20, Gurugram 122 016, Haryana, India Tel: +91 124 405 8254 E-mail: cs@urbancompany.com; Website: www.urbancompany.com Bidders may contact the Company Secretary and Compliance Officer, the BRLMs or the Registrar to the Offer in case of any pre-offer or post-offer related grievances including non-receipt of letters of Allotment, non-receipt of Allotment Advice, non-credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode, etc. For all Offer related queries and for redressal of complaints, investors may also write to the Book Running Lead Managers.

AVAILABILITY OF RHP: Investors should note that Investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the RHP and the Risk Factors contained herein, before applying in the Offer. Full copy of the RHP is available at the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of Stock Exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com the website of our Company at www.urbancompany.com and the website of BRLMs i.e. Kotak Mahindra Capital Company Limited, Morgan Stanley India Company Private Limited, Goldman Sachs (India) Securities Private Limited and JM Financial Limited at <https://investmentbank.kotak.com>, www.morganstanley.com, www.goldmansachs.com and www.jmf.com, respectively.

AVAILABILITY OF THE ABRIDGED PROSPECTUS: A copy of the abridged prospectus shall be available on the website of our Company, the BRLMs, i.e. Kotak Mahindra Capital Company Limited, Morgan Stanley India Company Private Limited, Goldman Sachs (India) Securities Private Limited and JM Financial Limited at <https://investmentbank.kotak.com>, www.morganstanley.com, www.goldmansachs.com and www.jmf.com, respectively and the website of the Registrar to the Offer i.e., MUFG Intime India Private Limited (Formerly Link Intime India Private Limited) at www.in.mpgms.mufg.com

AVAILABILITY OF BID CUM APPLICATION FORMS: Application forms can be obtained from the Registered and Corporate office of **Urban Company Limited**, Tel: +91 124 405 8254 and the **BRLMs** – Kotak Mahindra Capital Company Limited, Tel: +91 22 4336 0000, Morgan Stanley India Company Private Limited, Tel: +91 22 6118 1000, Goldman Sachs (India) Securities Private Limited, Tel: +91 22 6616 9000 and JM Financial Limited, Tel: +91 22 6616 9000.

Syndicate Members: Kotak Securities Limited, JM Financial Services Limited and at the select locations of the Sub-syndicate Members (as given below), SCSBs, Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Offer. Bid cum Application Forms will also be available on the websites of BSE and NSE and the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the Stock Exchanges and SEBI.

APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA): Investors have to apply through the ASBA process. ASBA has to be availed by all the investors. For details on ASBA process, please refer to the details given in the ASBA Form and Abridged Prospectus and also please refer to “**Offer Procedure**” on Page No. 486 of RHP. Further ASBA Application forms can be obtained from Designated Branches of SCSBs, the list of banks that are available on website of SEBI at www.sebi.gov.in and website of Stock Exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com. The investors are required to fill the Bid Cum Application form and submit the same to the relevant SCSBs at the specific locations or registered brokers at the broker centers or RTA or DP's. The SCSB's will block the amount in the account as per the authority contained in application form. On allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for allotment of shares. Hence, there will be no need of refund.

Sub-Syndicate Members: Almondz Global Securities Ltd, Amrapali Capital & Finance Services Ltd., Anand Rathi Share & Stock Brokers Ltd, Asit C. Mehta Investment Intermediates Ltd, Axis Capital Limited, Bajaj Financial Securities Ltd, Centrum Broking Limited, Eurekha Stock & Share Brokers Ltd, Finwizard Technology Pvt Limited, Globe Capital Markets Ltd, HDFC Securities Limited, ICICI Securities Limited, IDBI Capital Markets & Securities Limited, IIFL Capital Services Ltd (Formerly known as IIFL Securities Ltd), JM Financial Services Limited, Jobanputra Fiscal Services Private Limited, Kantilal Chhaganlal Securities P. Ltd, Keynote Capital Limited, KJMC Capital Market Services Limited, Kotak Securities Limited, LKP Securities Limited, Motilal Oswal Financial Services Limited, Nirmal Bang Securities Pvt. Ltd., Nuvama Wealth and Investment Limited (Formerly known as Edelweiss Broking Limited), Prabhudas Lilladher Pvt Ltd, Pravin Ratilal Share & Stock Brokers Limited, Religare Broking Ltd, RR Equity Brokers Private Limited, SBICap Securities Limited, Sharekhan Ltd, SMC Global Securities Ltd, Systematix Shares and Stock Brokers Ltd, Tradebulls Securities Limited, Viren M Shah, YES Securities (India) Limited.

Bankers to the Offer

Escrow Collection Bank, Sponsor Bank and Refund Bank: Axis Bank Limited

Public Offer Account Bank and Sponsor Bank: ICICI Bank Limited

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in RHP.

Place: New Delhi
Date: September 4, 2025

For Urban Company Limited
(formerly UrbanClap Technologies India Limited)

On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Sonal Singh
Company Secretary and Compliance Officer

Urban Company Limited is proposing, subject to, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the RHP with the RoC on September 2, 2025. The RHP is available on the website of the Company at www.urbancompany.com, SEBI at www.sebi.gov.in, as well as on the websites of the BRLMs, i.e. Kotak Mahindra Capital Company Limited, Morgan Stanley India Company Private Limited, Goldman Sachs (India) Securities Private Limited and JM Financial Limited at <https://investmentbank.kotak.com>, www.morganstanley.com, www.goldmansachs.com and www.jmf.com, respectively and the websites of National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com, respectively. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, please see “**Risk Factors**” on page 33 of the RHP. Potential investors should not rely on the DRHP.

The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (“**U.S. Securities Act**”), or any state securities laws in the United States, and unless so registered may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, such Equity Shares are being offered and sold (i) outside of the United States in offshore transactions in compliance with Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur; and (ii) within the United States solely to a person that is a qualified institutional buyer within the meaning of Rule 144A under the U.S. Securities Act that is also a “qualified purchaser” as defined in Section 2(a)(51) of the U.S. Investment Company Act of 1940, as amended, and the rules thereunder (the “**U.S. Investment Company Act**”) in a transaction exempt from, or not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and in reliance on the exemption set forth in Section 3(c)(7) of the U.S. Investment Company Act.

Adfactors



TATA POWER
Corporate Contracts Department

The Tata Power Company Limited, Smart Center of Procurement Excellence, 2nd Floor, Sahar Receiving Station, Near Hotel Leela, Sahar Airport Road Andheri (E), Mumbai 400 059, Maharashtra, India
(Board Line: 022-67173917) | CIN: L28920MH1919PLC009567


NOTICE INVITING TENDER (NIT)

The Tata Power Company Limited invites tenders from eligible vendors for the following package (Two Part Bidding) in Transmission division, Mumbai.

- EPC of 220KV 1-Core 1600 Sqmm Copper XLPE Lead Sheath cable along with associated accessories for new 110KV GIS at Badlapur RSS (Package Reference: CC26NP019).

For detailed NIT, please visit Tender section on website <https://www.tatapower.com>. Interested bidders to submit Tender Fee and Authorization Letter upto **1500 hrs of 15th September 2025** for above tenders.

Also, all future corrigendum's (if any), to the above tenders will be informed on Tender section on website <https://www.tatapower.com> only.



GEM ENVIRO MANAGEMENT LIMITED
(Formerly Known as GEM Enviro Management Private Limited)
CIN: L9300DL2013PLC247767

Regd. Office: Unit No. 203, Plaza 3, Central Square, Bara Hindu Rao, Delhi - 110006
E-mail: info@gemrecycling.com; Website: www.gemrecycling.com; Tel. No: 011-49068377
INFO OF THE 12th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING

Notice is hereby given that the 12th Annual General Meeting (“AGM”) of the members of GEM Enviro Management Limited (“the Company”) will be held on **Monday, September 29, 2025 at 12:30 P.M. (IST)** through Video Conferencing (“VC”) / Other Audio Visual Means (“OAVM”), to transact the businesses as set out in the Notice of the 12th AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (“the Act”) read with the General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs (“MCA”) read together with other previous circulars issued by MCA in this regard (collectively referred to as “**MCA Circulars**”) and the applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”) read with Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/PICIR/2024/133 dated October 03, 2024 issued by Securities and Exchange Board of India (“SEBI”) read together with the other previous circulars issued by SEBI in this regard (collectively referred to as “**SEBI Circulars**”).

In accordance with the said MCA Circulars and SEBI Circulars, the Company has sent the Notice along with the Annual report of the Company for the Financial year 2024-25 through electronic mode to all its members whose e-mail IDs are registered, as on **Friday, August 29, 2025**, with the Company/ RTA/ Depository Participants (DPs). The electronic dispatch of the Notice and the Annual Report has been completed on **September 04, 2025** and these documents are also available on the websites of the Company at <https://gemrecycling.com/annual-report/>, BSE Limited at www.bseindia.com, and Central Depository Services (India) Limited (“CDSL”) at www.evotingindia.com.

In accordance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI Listing Regulations, the Company has also sent a physical communication to the members whose e-mail IDs are not registered, containing the web link and exact path of the company's website from where the Annual Report can be accessed. Pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of the SEBI Listing Regulations, the Register of Members and share transfer books of the Company will remain closed from **Tuesday, September 23, 2025 to Monday, September 29, 2025** (both days inclusive) for taking on record the members of the Company for the purpose of 12th AGM of the Company and for final dividend. Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and other applicable provisions of the Act, if any, of the Act and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, as amended, circulars issued by MCA and SEBI and the Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide to its members the e-voting facility (both remote e-voting before the AGM and e-voting during the AGM) to cast their votes electronically through e-voting services of CDCL, in respect of all the business(es) as set forth in the Notice of the 12th AGM.

The members can join and attend the 12th AGM through VC/ OAVM. The detailed procedure of e-voting and participation in the AGM through VC/OAVM is provided in the Notes to the Notice of 12th AGM, for the members holding shares in demat mode, physical mode and for the members whose e-mail IDs are not registered. Members are requested to read the instructions carefully pertaining to attending AGM through VC/OAVM, manner of casting vote through remote e-voting and e-voting during AGM, as provided in the Notes to the Notice of 12th AGM.

Those Members who participate in the AGM through VC/OAVM and have not casted their vote through remote e-voting facility may cast their vote during the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to AGM may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again.

Person(s) whose name is recorded in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on **Monday, September 22, 2025 (“Cut-off date”)** shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM.

The remote e-voting period will commence on **September 26, 2025 at 09:00 A.M. (IST) and will end on September 28, 2025 at 05:00 P.M. (IST)**. The Remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time and shall be disabled by CDCL thereafter. Once the vote on the resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

In case of any person becoming the member of the Company after the dispatch of the Notice of 12th AGM but on or before the cut-off date i.e. **Monday, September 22, 2025**, such person may obtain the user id and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or compliance@skylintinfra.com. A person who is not a member as on the cut-off date shall treat this notice for information purpose only.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDCL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, CDCL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurax, Mafatal Mill Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013.

Mr. Hemant Kumar Sajani (Membership No. FCST348, CP No. 14214), partner of HKS & Associates LLP, Practising Company Secretaries, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote voting and e-voting process in fair and transparent manner. The result of e-voting shall be declared within the stipulated time under applicable laws. The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website at <https://gemrecycling.com/shareholders-meeting/>, and on the website of CDCL at www.evotingindia.com and communicated to the Stock Exchanges at www.bseindia.com.

Members may note that the record date will be **Monday, September 22, 2025**, for the purpose of determining the entitlement of the members to receive Final Dividend for the financial year 2024-25, subject to the approval of members at the ensuing AGM. The final Dividend once approved, will be credited/ dispatched within 30 days from the date of approval to all those members holding shares as on the record date.

As all shares of the Company are held in dematerialized form, members are requested to update/ register their email addresses, bank account details and mobile numbers with their respective Depository Participants.

For GEM Enviro Management Limited
Sd/-
Tripti Goyal
Company Secretary & Compliance Officer
ICSI M. No.: ACST3180

Date : September 05, 2025
Place : Delhi



BEML LIMITED
(CIN: L35202KA1964G01001530)
(A Government of India Schedule-A Company under Ministry of Defence)
Registered Office: “BEML SOUDHA”, 23/1, 4th Main Road, S.R. Nagar, Bengaluru-560 027
Phone: 080 - 22963142 / 22963211 Email: cs@beml.co.in Website : www.bemlindia.in

NOTICE OF 61st ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 61st Annual General Meeting (AGM) of the members of BEML Limited is scheduled to be held on **Monday, 29th September, 2025 at 11:30 A.M. (IST) at Hotel Four Seasons, 8 Bellary Road, Ganganagar, Bengaluru-560032**, to transact the business set out in the Notice of the AGM.

Details of AGM are as under:

S.No.	Particulars	Schedule
1.	Date for ascertaining members for sending Annual Report and Notice of AGM	Friday, 29-08-2025
2.	Record date for dividend payment and Cut-off date for ascertaining e-voting rights for AGM	Monday, 22-09-2025
3.	Book Closure	Tuesday, 23-09-2025 to Monday, 29-09-2025 (both days inclusive)
4.	Date and Time of commencement of remote e-voting	Friday, 26-09-2025 (09:00 AM)
5.	Date and Time of end of remote e-voting	Sunday, 28-09-2025 (05:00 PM)
6.	Agency for providing e-voting facility	Central Depository Services (India) Limited (“CDSL”)
7.	Website(s) where notice of AGM is available	1. www.bemlindia.in 2. www.evotingindia.com 3. www.bseindia.com 4. www.nseindia.com
8.	Scrutinizer for conducting voting process (Remote e-voting and Venue e-voting) and submitting Report	M/s MMA & Partners, (formerly known as M/s Manish Mishra & Associates.) Practising Company Secretaries Name: Mr. Rakesh Dalvi Designation: Sr. Manager, CDCL Address: A Wing, 25th Floor, Marathon Futurax, Mafatal Mill Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 Email ID: helpdesk.evoting@cdslindia.com Phone No.: 1800 22 55 33
9.	Contact details of person responsible to address the grievances relating to e-voting	

Members are hereby informed that:

- In compliance with the MCA Circular dated 19th September, 2024 read with SEBI circular dated 3rd October, 2024, the Company has completed the dispatch of Annual Report 2024-25 along with Notice of 61st AGM on 04-09-2025 through email to those members whose email addresses are registered with the Company/ RTA/ Depositories/ Depository Participant and whose names appear in the register of members/ beneficial owners as on 29-08-2025. Any person who becomes a member of the Company after the dispatch of the Notice of the AGM but holding shares as on cut-off date of 22-09-2025 and members who have forgotten their User ID and Password, can obtain/ generate the User ID and Password by following the instructions of remote e-voting and e-voting at/ during AGM as contained in the Notice of AGM. Further, any person who became member of the Company after cut-off date of 22-09-2025 shall consider the notice for information purpose only.
- Members are hereby informed that the Notice of the AGM and Annual Report 2024-25 are available on the Company's website at www.bemlindia.in and on the website of the Stock Exchanges, i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and will also be available on the website of Central Depository Services (India) Limited (“CDSL”) at www.evotingindia.com. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM.
- The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (“CDSL”) for facilitating remote e-voting and voting at/ during the AGM through electronic means. The remote e-voting period begins on **26-09-2025 at 09:00 AM and ends on 28-09-2025 at 05:00 PM**, both days inclusive. The remote e-voting module shall be disabled by CDCL for voting thereafter and remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid period. Instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM by members holding shares in physical or demat mode are given in the Notice of AGM. Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting will only be able to vote electronically at/ during the AGM.
- This AGM is being held physically. A member who wishes to attend the meeting physically and entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint one or more proxies to attend and vote instead of himself/ herself and such proxy need not be a member of the Company. The Proxy form, duly completed, stamped and signed as attached to Notice of 61st AGM must be deposited at the registered office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the AGM i.e. **on or before Saturday, 27-09-2025 at 11:30 A.M.**
- Manner of registering/ updating email ID/ mobile no.:

For Physical shareholders	Provide necessary details like Name of shareholder, Folio No., Mobile no., Email ID, copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested copy), AADHAAR (self-attested copy) by email to Company at cs@beml.co.in or RTA at einward.ris@klintech.com
For Demat shareholders	Update your email ID/ mobile no. with your respective Depository Participant (DP)


- Record Date for Final Dividend:** The Board of Directors of the Company has recommended the final dividend of Rs. 1.20/- per share of face value of Rs. 10/- each subject to approval by the Shareholders in the upcoming 61st Annual General Meeting of the Company. Further, the Company has fixed **Monday, 22nd September, 2025** as the Record date for the purpose of payment of final dividend for the financial year 2024-25.
- Tax on Dividend:** Members may note that the Income-tax Act, 1961, (“the IT Act”) as amended by the Finance Act, 2020, mandates that dividend paid or distributed by a company after April 1, 2020 shall be taxable in the hands of shareholders. The Company shall therefore be required to deduct tax at source (“TDS”) at the time of making the payment of final dividend, if declared at 61st AGM. The deduction of tax at source will be based on the residential status and classification of members, documents submitted and accepted by the Company. The members are requested to refer the Notice of 61st AGM for more details in this regard and submit the required documents as mentioned therein for non-deduction of TDS by email to einward.ris@klintech.com by **05:00 P.M. (IST) on 22-09-2025**.

For BEML Limited
Sd/-
Urmi Chaudhury
Company Secretary

Place: Bengaluru
Date: 05-09-2025

“IMPORTANT”

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.



DREAMFOLKS SERVICES LIMITED
CIN: L51909DL2008PLC177181
Regd. Office: 26, DDA Flats, Panchsheel Park, Shivajik Road, Panchsheel Enclave, South Delhi, New Delhi-110017, India
Tel.: 0124-4037306, Email: compliance@dreamfolks.in, Website: www.dreamfolks.com

NOTICE OF 17th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

In furtherance to our Notice published in the newspapers viz. Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on September 04, 2025 regarding the 17th Annual General Meeting (“AGM”) of the Members of Dreamfolks Services Limited (“**Company**”) to be held on Monday, September 29, 2025 at 11.30 A.M. (IST) through Video Conferencing (“VC”) / Other Audio-Video Means (“OAVM”), the Members of Company are hereby informed that the Notice convening the AGM, procedure & instructions for e-voting (remote e-voting and e-voting at the AGM) and the Annual Report for the Financial Year (“FY”) 2024-25 have been sent on September 04, 2025 to those Members whose email IDs are registered with the Company/ the Registrar and Transfer Agent (“RTA”) / Depository Participants (“DP”). Members may download the Notice of AGM, Annual Report for FY 2024-25 and other relevant documents from the Company's website www.dreamfolks.com and from the websites of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively and National Securities Depository Limited (“**NSDL**”) website at <https://www.evoting.nsdl.com>.

Additionally, as per the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“**SEBI LODR Regulations**”), letter is being sent to Shareholders whose email addresses are not registered with Company/RTA/depositories/DP providing the weblink, including the exact path of Company's website where the complete details of the Notice and Annual Report for FY 2024-25 is available.

In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (“**the Act**”) and Rules made thereunder and SEBI LODR Regulations read with applicable Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (“**MCA**”) and Securities and Exchange Board of India (“**SEBI**”) latest being General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/PICIR/2024/133 dated October 03, 2024, companies are allowed to hold AGM through VC/OAVM without the physical presence of the Members at a common venue. Hence, the AGM of the Company is being held through VC to transact the businesses as set forth in the Notice of the AGM. Members participating through VC shall be counted for reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The proceedings of the AGM shall be deemed to be conducted at the Registered Office of the Company.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the SEBI LODR Regulations, Secretarial Standard - 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India and MCA Circulars, the Members are provided with the facility to cast their votes electronically through remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) services provided by NSDL on all resolutions set forth in the Notice of 17th AGM. The detailed procedure for attending AGM, e-voting etc. is set forth in the Notice of AGM. Further, key details are as follows:

- The remote e-voting facility will be available during the following period:

Commencement of remote e-voting	From 09:00 A.M. (IST) on September 26, 2025 (Friday)
End of remote e-voting	Up to 05:00 P.M. (IST) on September 28, 2025 (Sunday)

The Remote e-voting facility will be forthwith disabled by NSDL and Members would not be allowed to vote through remote e-voting, beyond the said date and time.

- Members of the Company whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date i.e., **Monday, September 22, 2025** only, are entitled for e-voting and to attend the AGM. Once the vote on a resolution is cast by the Member, they shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of the Members shall be in proportion to their holding in the paid-up share capital of the Company as on the Cut-off date. Any person who is not a Member as on the cut-off date may treat this Notice for information purposes only.
- The facility for voting through electronic mode shall also be made available at the AGM. Members who have exercised their right to vote through remote e-voting may attend the AGM but shall not be allowed to cast their vote again thereafter.
- In case a person has become a Member of the Company after dispatch of the Notice but on or before the Cut-off date or has registered the email address after dispatch of the Notice, such Member may obtain the User ID and Password in the manner outlined in the Notice of AGM or write an email to us at compliance@dreamfolks.in, if such a person is already registered with NSDL for e-voting, existing user ID and password can be used for casting vote.
- Manner of registering/ updating KYC details including email address:**
 - Members holding shares in physical form and who have not registered/updated their KYC details including email address with the Company or RTA, may register/update such details, by submitting the details in the relevant forms, along with the supporting documents, at the following link: <https://web.in.mpgms.mufg.com/client-downloads.html> or by downloading the relevant forms from the said link and sending them along with details like Name, Folio Number, scanned copy of the share certificate (front and back) and self-attested scanned copy of PAN and Aadhar Card, either in writing, to MUFG Intime India Private Limited (formerly known as Link Intime India Private Limited), Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058, Tel.: 011-49411000, Email: delhi@in.mpgms.mufg.com.
 - Members holding shares in dematerialised mode and have not registered/updated their email address, can register/update their email address with the DP where they maintain their demat accounts.
- The results of e-voting will be declared by the Chairperson or any other person authorised by her, on or before Wednesday, October 01, 2025. The result along with the Scrutinizer's report will be hosted on the Company's website viz. www.dreamfolks.com and on NSDL's website viz. www.evoting.nsdl.com. The result shall also be intimated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited, NSDL & Central Depository Services (India) Limited. The Company will also display the results at its Registered Office.
- In case of any query regarding e-voting facility, please refer Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the Download section at www.evoting.nsdl.com or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager (NSDL) at pallavid@nsdl.co.in or can write at 301, 3rd Floor, Naman Chambers, GBlock, Plot No. C-32, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400051 or Contact at 022-48867000.

Shareholder may note that, in line with 100 Days Campaign - “**Saksham Niveshak**” from July 28, 2025 to November 6, 2025, Shareholders of the Company who have unpaid/unclaimed dividend(s) with the Company or whose KYC details, (viz., PAN, Bank account details, contact details, choice of nomination, specimen signature, emails, etc.), have not been updated are requested to write to the Company's RTA and further email to be sent to the Company at email id: compliance@dreamfolks.in.

The unclaimed/unpaid dividend(s) will be credited to the Shareholder's bank account only after the KYC is updated.

By Order of the Board of Directors
For Dreamfolks Services Limited
Harshit Gupta
Company Secretary and Compliance Officer
M. No.: A41111

Place: Gurugram
Date: September 04, 2025

